



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 फाल्गुन 1938 (श0)  
(सं0 पटना 167) पटना, मंगलवार, 28 फरवरी 2017

---

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर 2016

सं0 V/जे0एस0-508/2015-6430—विभागीय अधिसूचना संख्या-677 दिनांक 04.02.2016 के द्वारा श्री पंकज कुमार बसाक, तत्कालीन अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) को गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभाग में मुख्यालय निर्धारित किया गया था।

उक्त विभागीय आदेश के विरुद्ध श्री बसाक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या-10320/2016 दायर किया गया था, जिससे दिनांक 28.10.2016 के पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

" In result the order of suspension bearing memo no. 677 dated 04.02.2016 of the State Government in its Registration, Excise & Prohibition Department impunged at Anmexure-7 whereby the petitioner has been put under suspension is quashed and set aside .

Insofar, as the prayer for the payment of subsistence allowance is concerned, the disciplinary authority is directed to make payment thereof within three months from the date of receipt/production of a copy of the order."

माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में विभाग द्वारा श्री बसाक को निलंबन मुक्त किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श की मांग की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-10320/2016 में दिनांक 28.10.2016 को पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त के आलोक में श्री पंकज कुमार बसाक, अवर निबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अभय राज,  
सरकार के विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 167-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>